



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2011/माघ 22, 1932

No. 282]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2011/MAGHA 22, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2011

का.आ. 327(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 363(अ), तारीख 15 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के नवसारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 271/500 कि.मी. से 318/600 कि.मी. (सूरत-दहीसर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 मई, 2010 को “दि इण्डियन एक्सप्रेस” और “दिव्य भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, तीन आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के नवसारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 8.के 271/500.मी. से 318/600 कि. मीतक(सुरत - दहिसर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

| क्रम संख्या | जिला का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) | हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | नवसारी | नवसारी | (1) धारागिरी | 97 | निजी | कृषी | 0.0136 | मोचनबेन गोपालभाई |
| | | | | 98/5 | निजी | गैरकृषी | 0.0024 | भुपतसींह अमरसींह डोडीया |
| | | नवसारी | (2) बोरीयाच | 48 | निजी | कृषी | 0.0073 | मगनभाई रमणभाई पटेल |
| | | | | 47 | निजी | कृषी | 0.0132 | बाबुभाई कानजीभाई |
| | | | | 57 | निजी | कृषी | 0.0079 | खेंगरभाई हरीभाई रबारी, अमरतभाई परभुभाई |
| | | | | 46 | निजी | कृषी | 0.0039 | बाबुभाई कानजीभाई, बुधभाई कानजीभाई, सीताबेन कानजीभाई, शांताबेन कानजीभाई, मनीबेन रामाभाई कानजीभाई, सुधाबेन भगुभाई कानजीभाई, अल्पेशभाई भगुभाई, उत्पालभाई भगुभाई, आशाबेन भगुभाई, जंयती रामाभाई, ईल्याबेन रामाभाई. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---------------|---|-----|------|------|--------|---|
| | | | | 45 | निजी | कृषी | 0.0456 | रेवाबेन कानजीभाई, कमलाबेन कानजीभाई, रणजीतभाई कानजीभाई, विजयभाई कानजीभाई. |
| | | | | 43 | निजी | कृषी | 0.0238 | बाबुभाई कानजीभाई |
| | | | | 42 | निजी | कृषी | 0.0416 | मुकेशभाई केशवभाई, जमनाबेन केशवभाई, हंसाबेन ईश्वरभाई, निरुबेन ईश्वरभाई केशवभाई, राजेशभाई ईश्वरभाई, धर्मेशभाई ईश्वरभाई, प्रितीबेन ईश्वरभाई, इंदिराबेन दयाळभाई पटेल, अशिमताबेन दयाळभाई पटेल, संदिपकुमार दयाळभाई पटेल, शैलेशभाई दयाळभाई पटेल, जशुबेन रमेशभाई पटेल, परेशभाई रमेशभाई पटेल, जयेशभाई रमेशभाई पटेल, नयनाबेन रमेशभाई पटेल. |
| | | | | 34 | निजी | कृषी | 0.0040 | दिनेशभाई रणछोडजी, अमृतभाई रणछोडजी पटेल, रमेशभाई रणछोडजी पटेल |
| | | | | 41 | निजी | कृषी | 0.0031 | नथुराम मनीराम, कुमूदबेन नथुराम, मनीराम रामानंद, वनिताबेन नथुराम, हरीशभाई नथुराम, भरतभाई नथुराम |
| | | (3) रजवाडा | | 193 | निजी | कृषी | 0.1049 | कांतीभाई रणछोडभाई, ईश्वरभाई रणछोडभाई, घनसुखभाई रणछोडभाई, मधुबेन रणछोडभाई, नर्मदाबेन ठाकोरभाई, पुनीतकुमार ठाकोरभाई. |
| | | | | 206 | निजी | कृषी | 0.0277 | छोटूभाई नारनभाई |
| | | | | 205 | निजी | कृषी | 0.0535 | महेंद्रभाई रामाभाई, काशीबेन रामाभाई. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|------------|------|------|--------|---|
| | | | | 204 | निजी | कृशी | 0.1287 | गोपालभाई घेलाभाई |
| | | | | 217 | निजी | कृशी | 0.1480 | किशोरभाई छोटूभाई, प्रवीणचंद्र छोटूभाई, जयंतीभाई छोटूभाई, रामचंद्र छोटूभाई, प्रतीक्षाबेन छोटूभाई कुवंरजी |
| | | | | 222/1 P | निजी | कृशी | 0.0812 | चंपकलाल चूनीलाल, अमृतलाल चूनीलाल, चिमनलाल चूनीलाल, मनीबेन चूनीलाल भगवानजी. |
| | | | | 221 | निजी | कृशी | 0.0198 | अे जे मीलर मिशन बोर्ड चर्च ऑफ दी ब्रदर्स. |
| | | | | 225 | निजी | कृशी | 0.0198 | मनीभाई बिजलाभाई. |
| | | | | 224 | निजी | कृशी | 0.0040 | छोटूभाई लखुभाई, रणछोडभाई लखुभाई, चिमनभाई सोमाभाई, भगूभाई सोमाभाई, मंगामाई सोमाभाई, रमनभाई सोमाभाई, सविताबेन सोमाभाई, लाडुबेन सोमाभाई, पालीबेन सोमाभाई. |
| | | | | 226 | निजी | कृशी | 0.0040 | भिखामाई नारनभाई, छोटूभाई नारनभाई, मोरारभाई नारनभाई. |
| | | | | 1 | निजी | कृशी | 0.1449 | पार्वतीबेन दयाळजी मनी, हसमुख दयाळजी, ईश्वरभाई दयाळजी, नरहरीभाई दयाळजी, प्रकाशभाई दयाळजी, सुभाषभाई दयाळजी, काशीबेन लल्लुभाई, महेशभाई लल्लुभाई, प्रवीणभाई लल्लुभाई, मधुबेन लल्लुभाई, उषाबेन लल्लुभाई, भारतीबेन लल्लुभाई. |
| | | | | 4 | निजी | कृशी | 0.0099 | भिखामाई नारनभाई, छोटूभाई नारनभाई, मोरारभाई नारनभाई. |
| | | | | 2 | निजी | कृशी | 0.0040 | रामभाई खीमाभाई भुवा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--------------|---------------|-----|------|------|--------|---|
| | | | | 203 | निजी | कृषी | 0.0594 | भरतभाई सुखदेवभाई, सुखदेवभाई लालाभाई. |
| | | | | 195 | निजी | कृषी | 0.0990 | रमीलाबेन अमृतलाल केशवभाई, जयेशभाई अमृतलाल, अनिलभाई छोटूभाई, निलाबेन छोटूभाई, कमलाबेन छोटूभाई, मंजुलाबेन छोटूभाई. |
| | | | | 194 | निजी | कृषी | 0.0040 | निरुबेन अमृतभाई रणछोडभाई, बाबुभाई रणछोडभाई. |
| | | | (4) अमदपोर | 141 | निजी | कृषी | 0.0027 | प्रकाशभाई छोटूभाई, ज्योतीबेन प्रकाशचंद्र |
| | | | | 142 | निजी | कृषी | 0.0098 | झवेरभाई नगीनभाई पटेल, नंदीबेन नाथुभाई पटेल, सुमनभाई नाथुभाई पटेल, रमेशभाई नाथुभाई पटेल, दिनेशभाई नाथुभाई पटेल |
| | | 2 जलालपोर | वेस्मा | 486 | निजी | कृषी | 0.0772 | लालीबेन मिखाभाई हरीभाई, नथूभाई राघाभाई, माकनभाई रामभाई, सुखीबेन दलुभाई राघाभाई, मंछाबेन खुशालभाई गोवनजी, कमुबेन खुशालभाई गोवनजी, गांडाभाई गोवनजी, जीवनभाई गोवनजी, जयश्रीबेन मिखाभाई, लालीबेन मिखाभाई हरीभाई, ईल्याबेन मिखाभाई, डायामाई वेस्ताभाई, मकनभाई वेस्ताभाई, बुधीयामाई वेस्ताभाई, मनीबेन वेस्ताभाई, दिनेशभाई मिखाभाई आहिर. |
| | | | | 488 | निजी | कृषी | 0.0139 | फकिर हशन मयात, रबीया फकिर हशन मयात. |
| | | | | 489 | निजी | कृषी | 0.0376 | उझीबेन ईस्माईलभाई. |
| | | | | 491 | निजी | कृषी | 0.0337 | खातीजा सुलेमान अब्दुल बुधीयानी |

526 40/11-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|------|------|--------|---|
| | | | | | | | | फातमा सुलेमान अब्दुल बुधियानी, मुसा सुलेमान अब्दुल बुधियानी, सबेश सुलेमान अब्दुल बुधियानी, आयशा सुलेमान अब्दुल बुधियानी. |
| | | | | 493 | निजी | कृशी | 0.0416 | रतीलाल मिखाभाई पटेल, अमृतलाल मनीलाल, रमीलाबेन रणजीतलाल, यज्ञेशकुमार रणजीतलाल पटेल, मनीषकुमारी रणजीतलाल पटेल, मधुबेन रतीलाल पटेल, नैतिककुमार रतीलाल पटेल, धर्मेशकुमार रतीलाल पटेल, बलवंतराय मिखाभाई पटेल, कंचनबेन बलवंतराय पटेल, मिलनकुमार बलवंतराय पटेल, विनेशकुमार बलवंतराय पटेल. |
| | | | | 481 | निजी | कृशी | 0.0320 | योगेशभाई नानुभाई उमरीगर, हरीशभाई नानुभाई उमरीगर, नानुभाई जीवनभाई उमरीगर, शैलेशभाई नानुभाई उमरीगर. |
| | | | | 485 | निजी | कृशी | 0.0634 | शिवजीभाई परागजीभाई जीयानी. |
| | | | | 497 | निजी | कृशी | 0.0326 | लालीबेन मिखाभाई हरीभाई, ईल्याबेन मिखाभाई आहीर, जयश्रीबेन मिखाभाई आहीर, दिनेशभाई मिखाभाई आहीर. |
| | | | | 496 | निजी | कृशी | 0.0396 | लालीबेन मिखाभाई हरीभाई, ईल्याबेन मिखाभाई आहीर, जयश्रीबेन मिखाभाई आहीर, दिनेशभाई मिखाभाई आहीर. |
| | | | | 503 | निजी | कृशी | 0.0830 | युसूफ महमद दिलेर, रसीद महमद दिलेर, अब्दुल रसीद महमद दिलेर, फातमा महमद दिलेर, आयशा महमद दिलेर, साराबीबी महमद दिलेर. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|------|------|--------|--|
| | | | | 495 | निजी | कृषी | 0.0014 | वीरबाला चंद्रवर्धन छोटालाल, संतकुमार छोटालाल शाह. |
| | | | | 494 | निजी | कृषी | 0.2351 | खातीजा सुलेमान अब्दुल बुधीयानी फातमा सुलेमान अब्दुल बुधीयानी, मुसा सुलेमान अब्दुल बुधीयानी, सबेरा सुलेमान अब्दुल बुधीयानी, आयशा सुलेमान अब्दुल बुधीयानी. |
| | | | | 515 | निजी | कृषी | 0.0515 | जमनाबेन हरीभाई, परभूभाई हरीभाई, पार्वतीबेन हरीभाई भगामाई, चंपाबेन हरीभाई भगामाई, देवीबेन हरीभाई भगामाई, शारदाबेन जमनादास हरीभाई, अनिल जमनादास हरीभाई, कमलेश जमनादास हरीभाई, भारतीबेन जमनादास हरीभाई, निरंजनबेन जमनादास हरीभाई, ज्योतीबेन जमनादास हरीभाई, प्रमोदभाई परभूभाई, पुष्पाबेन परभूभाई हरीभाई, प्रतिभाबेन परभूभाई हरीभाई. |
| | | | | 514 | निजी | कृषी | 0.9110 | नरेशभाई ओढवभाई पटेल, तेजसकुमार नरेशभाई पटेल, विशाखाबेन नरेशभाई पटेल, ज्योतीबेन नरेशभाई पटेल. |
| | | | | 511 | निजी | कृषी | 0.0377 | हजीपरा नानी मस्जीद, अहमद ईब्राहीमभाई बोडीयात. |
| | | | | 509 | निजी | कृषी | 0.0396 | महमद हशान घांची. |
| | | | | 520P 1 | निजी | कृषी | 0.0455 | खातीज महमद ईस्माईल अब्राहम. |
| | | | | 519 | निजी | कृषी | 0.0733 | नरेशभाई ओढवभाई पटेल, तेजसकुमार नरेशभाई पटेल, विशाखाबेन नरेशभाई पटेल, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|------|------|--------|---|
| | | | | | | | | ज्योतीबेन नरेशभाई पटेल. |
| | | | | 537 | निजी | कृशी | 0.0792 | बलवंतराय भिखामाई पटेल, कंचनबेन बलवंतराय पटेल, मधुबेन रतीलाल पटेल, नैतिककुमार रतीलाल पटेल, धर्मेशकुमार रतीलाल पटेल, मिलनकुमार बलवंतराय पटेल, विनेशकुमार बलवंतराय पटेल. |
| | | | | 536 | निजी | कृशी | 0.0475 | खातीज ईस्माईल हशन दिलेर, ईब्राहीमभाई हशनभाई दिलेर, आयुब ईस्माईल दिलेर, फातमा अहमद हशन दिलेर, फारुख ईस्माईल दिलेर, हारुन अहमद हशन दिलेर, महमद अहमद हशन दिलेर, ईकबाल अहमद सैयद दिलेर, राबीया अहमद दिलेर, हाफीजा अहमद दिलेर, मरीयम ईस्माईल दिलेर, नासीर ईस्माईल दिलेर, आयशा ईस्माईल दिलेर. |
| | | | | 526 | निजी | कृशी | 0.0713 | बलवंतराय भिखामाई पटेल, कंचनबेन बलवंतराय पटेल, मधुबेन रतीलाल पटेल, नैतिककुमार रतीलाल पटेल, धर्मेशकुमार रतीलाल पटेल, मिलनकुमार बलवंतराय पटेल, विनेशकुमार बलवंतराय पटेल. |
| | | | | 522 | निजी | कृशी | 0.1918 | खातीज ईस्माईल हशन दिलेर, ईब्राहीमभाई हशनभाई दिलेर, आयुब ईस्माईल दिलेर, फातमा अहमद हशन दिलेर, फारुख ईस्माईल दिलेर, हारुन अहमद हशन दिलेर, महमद अहमद हशन दिलेर, ईकबाल अहमद सैयद |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|------|---------|--------|---|
| | | | | | | | | दिलेर, राबीया अहमद दिलेर, हाफीजा अहमद दिलेर, मरीयम ईस्माईल दिलेर, नासीर ईस्माईल दिलेर, आयशा ईस्माईल दिलेर. |
| | | | | 531 | निजी | कृशी | 0.0059 | फरीदा महमद फकीर घांची, नसीर महमद घांची, हवागौरी महमद फकीर घांची. |
| | | | | 530 | निजी | कृशी | 0.1405 | महमद सैयद कासीम बोडीयात. |
| | | | | 565 | निजी | कृशी | 0.0079 | महमद इद्रिश ईसपजी दिलेर. |
| | | | | 375 | निजी | कृशी | 0.1763 | मुकतार ईस्माईल, महमद ईस्माईल, इब्राहीमभाई हशनभाई दिलेर, फातमा अहमद हशन दिलेर, ईकबाल अहमद सैयद दिलेर, हारून अहमद हशन दिलेर, राबीया अहमद दिलेर, हाफीजा अहमद दिलेर, महमद अहमद दिलेर, मरीयम ईस्माईल दिलेर खातीज अहमद दिलेर, नासीर ईस्माईल दिलेर, आयशा ईस्माईल दिलेर फारुख ईस्माईल दिलेर, आयुब ईस्माईल दिलेर. |
| | | | | 529 | निजी | कृशी | 0.1743 | महमद ईसपजी दिलेर, मुसेजी ईसपजी दिलेर. |
| | | | | 528 | निजी | कृशी | 0.0495 | महमद युसूफ दिलेर. |
| | | | | 527 | निजी | कृशी | 0.0198 | पदमाबेन मनीभाई हरीभाई, ईश्वरभाई मनीभाई पांचाल, किशोरभाई मनीभाई पांचाल, अरवींदभाई मनीभाई पांचाल. |
| | | | | 373 | निजी | कृशी | 0.0356 | सकीना मुसा महमद घालेड, मरीयम मुसा महमद घालेड, खातीज मुसा महमद घालेड, महमद मुसा महमद घालेड, फातमा मुसा महमद घालेड, अहमद मुसा महमद घालेड. |
| | | | | 345 | निजी | कृशी | 0.0059 | शांतीलाल भानाभाई, जगुभाई मंगाभाई, भिखुभाई मंगाभाई. |
| | | | | 371 | निजी | गैरकृशी | 0.0040 | उमाशंकर प्यारेलाल यादव, रमेशचंद्र प्यारेलाल यादव. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|------|------|--------|--|
| | | | | 372 | निजी | कृशी | 0.0895 | मेरुनिशा सुलेमान, हलीमाबीबी सुलेमान, फकीर ईब्राहीम महमद, युसूफ ईब्राहीम. |
| | | | | 376 | निजी | कृशी | 0.0594 | महमद ईब्राहीम, आयशा महमद पटेल, ईस्माईल महमद पटेल, हासीम महमद पटेल, ईब्राहिम महमद पटेल, हशन महमद पटेल, युसूफ महमद पटेल, फातेमा महमद पटेल, हवा महमद पटेल, झुबेदा महमद पटेल. |
| | | | | 346 | निजी | कृशी | 0.0195 | मगनभाई नथुभाई पटेल, प्रेमिलाबेन मोहनभाई लल्लुभाई, हरीदास मोहनभाई, रनजनाबेन मोहनभाई, भरतभाई मोहनभाई. |

[फा. सं. भारावा/सूरत/एसडीएम/भू.अ./15939]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2011

S.O. 327(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 363 (E), dated the 15th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8 on the stretch of land from km. 271/500 to km. 318/600 (Surat-Dahisar Section) in District Navsari in the state of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” and “Divya Bhaskar”, both dated the 20th May, 2010, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas three objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 271/500 to km 318/600 on the National Highway No. 8. (Surat-Dahisar Section) in District Navsari the State of Gujarat.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluka | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in hectares) | Name of person Interested |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Navsari | Navsari | (1) Dharagiri | 97 | Private | Agriculture | 0.0136 | Mochanben Gopalbhai. |
| | | | | 98/5 | Private | Non Agriculture | 0.0024 | Bhupatsinh Amarsinh Dodiya. |
| | | | (2) Boriyach | 48 | Private | Agriculture | 0.0073 | Maganbhai Ramanbhai Patel. |
| | | | | 47 | Private | Agriculture | 0.0132 | Babubhai Kanjibhai. |
| | | | | 57 | Private | Agriculture | 0.0079 | Khengarbhai Haribhai Rabari (Desai) Amrutbhai Parbhubhai. |
| | | | | 46 | Private | Agriculture | 0.0039 | Babubhai Kanjibhai, Budhabhai Kanjibhai, Sitaben Kanjibhai, Shantaben Kanjibhai, Maniben wd/o Ramabhai Kanjibhai, Sudhaben wd/o Bhagubhai Kanjibhai, Alpeshbhai Bhagubhai, Utpalbhai Bhagubhai, Ashaben Bhagubhai, Jayanti Ramabhai, Elaben Ramabhai. |
| | | | | 45 | Private | Agriculture | 0.0456 | Revaben Kanjibhai, Kamlaben Kanjibhai, Ranjitbhai Kanjibhai, Vijaybhai Kanjibhai. |
| | | | | 43 | Private | Agriculture | 0.0238 | Babubhai Kanjibhai. |
| | | | | 42 | Private | Agriculture | 0.0416 | Mukeshbhai Keshavbhai, Jamnaben Keshavbhai, Hansaben Ishwarbhai Keshavbhai, Niruben Ishwarbhai Keshavbhai, Rajeshbhai Ishwarbhai, Dharmeshbhai Ishwarbhai, Pritiben Ishwarbhai, Indiraben Dayalbhai Patel, Ashmitaben Dayalbhai Patel, Sandipkumar Dayalbhai Patel, Shaileshbhai Dayalbhai |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|-----------------|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Patel, Jashuben Rameshbhai Patel, Pareshbhai Rameshbhai Patel, Jayeshbhai Rameshbhai Patel, Nayanaben Rameshbhai Patel. |
| | | | | 34 | Private | Agriculture | 0.0040 | Dineshbhai Ranchhodji, Amrutbhai Ranchhodbhai Patel, Rameshbhai Ranchhodbhai Patel. |
| | | | | 41 | Private | Agriculture | 0.0031 | Nathuram Maniram, Kumudben Nathuram Maniram Ramanandi Vanitaben Nathuram Maniram Ramanandi Harishbhai Nathuram Maniram Ramanandi Bharatbhai Nathubhai Maniram Ramanandi |
| | | | (3) Rajawada | 193 | Private | Agriculture | 0.1049 | Kantibhai Ranchhodbhai, Ishwarbhai Ranchhodbhai, Dhansukhbhai Ranchhodbhai, Kusumben Ranchhodbhai, Madhuben Ranchhodbhai, Narmadaben Thakorbhai, Punitkumar Thakorbhai. |
| | | | | 206 | Private | Agriculture | 0.0277 | Chhotubhai Naranbhai. |
| | | | | 205 | Private | Agriculture | 0.0535 | Mahendrabhai Ramabhai, Kashiben Ramabhai. |
| | | | | 204 | Private | Agriculture | 0.1287 | Gopalbhai Ghelabhai. |
| | | | | 217 | Private | Agriculture | 0.1480 | Kishorbhai Chhotubhai, Pravinchandra Chhotubhai, Jayantibhai Chhotubhai, Ramchandra Chhotubhai, Pratikshaben d/o Chhotubhai Kuvarjibhai. |
| | | | | 222/1P | Private | Agriculture | 0.0812 | Champaklal Chunilal, Amrulal Chunilal, Chimanlal Chunilal, Maniben wd/o Chunilal Bhagvanji. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|-----------------|-----|---------|--------------------|--------|--|
| | | | | 221 | Private | Agriculture | 0.0198 | A.J.Milar Mishan Board Church Of The Brothers. |
| | | | | 225 | Private | Agriculture | 0.0198 | Manibhai Bijalabhai. |
| | | | | 224 | Private | Non Agriculture | 0.0040 | Chhotubhai Lakhubhai, Ranchhodbhai Lakhubhai, Chimanbhai Somabhai, Bhagabhai Somabhai, Mangabhai Somabhai, Ramanbhai Somabhai, Savitaben Somabhai, Laduben Somabhai, Paliben Somabhai. |
| | | | | 226 | Private | Agriculture | 0.0040 | Bhikhabhai Naranbhai, Chhotubhai Naranbhai, Morarbhai Naranbhai. |
| | | | | 1 | Private | Agriculture | 0.1449 | Parvatiben wd/o Dayal mani Hasmukh Dayalji, Ishwarbhai Dayalji, Narharibhai Dayalji, Prakashbhai Dayalji, Subhashbhai Dayalji, Kashiben w/o Lallumani Maheshbhai Lallubhai, Pravinbhai Lallubhai, Madhuben Lallubhai, Ushaben Lallubhai, Bharatiben Lallubhai. |
| | | | | 4 | Private | Agriculture | 0.0099 | Bhikhabhai Naranbhai, Chhotubhai Naranbhai, Morarbhai Naranbhai. |
| | | | | 2 | Private | Agriculture | 0.0040 | Rambhai Khimabhai Bhuva. |
| | | | | 203 | Private | Agriculture | 0.0594 | Bharatbhai Sukhadevbhai, Sukhadevbhai Lalabhai. |
| | | | | 195 | Private | Agriculture | 0.0990 | Ramilaben w/o Amrutlal Keshavbhai, Jayeshbhai Amrutlal, Anilbhai Chhotubhai, Nilaben Chhotubhai, Kamlaben Chhotubhai, Manjulaben Chhotubhai. |
| | | | | 194 | Private | Agriculture | 0.0040 | Niruben w/o Amrutbhai Ranchhodbhai, Babubhai Ranchhodbhai. |
| | | | (4) Amadpore | 141 | Private | Agriculture | 0.0027 | Prakashkumar Chhotulal, Jyotiben Prakashchandra |
| | | | | 142 | Private | Agriculture | 0.0098 | Zaverbhai Naginbhai Patel, |

526 46711-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----------------|-------|-----|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Nandiben Nathubhai Patel, Sumanbhai Nathubhai Patel, Rameshbhai Nathubhai Patel, Dineshbhai Nathubhai Patel. |
| | | 2. Jalalpor | Vesma | 486 | Private | Agriculture | 0.0772 | Laliben wd/o Bhikhabhai Haribhai, Nathubhai Raghobhai, Makanbhai Rambhai, Sukhiben w/o Dalubhai Raghobhai, Manchaben wd/o Khushalbai Govanbhai, Kamuben d/o Khushalbai Govanbhai, Gandabhai Govanbhai, Jivanbhai Govanbhai, Jayshreeben Bhikhabhai, Laliben wd/o Bhikhabhai Haribhai Elaben Bhikhabhai, Dayabhai Vestabhai, Makanbhai Vestabhai, Budhiyabhai Vestabhai, Maniben Vestabhai, Dineshbhai Bhikhubhai Ahir. |
| | | | | 488 | Private | Agriculture | 0.0139 | Fakir Hashan Mayat, Rabiya d/o Fakir Hashan Mayat. |
| | | | | 489 | Private | Agriculture | 0.0376 | Uzhiben Ismailbhai. |
| | | | | 491 | Private | Agriculture | 0.0337 | Khatija wd/o Suleman Abdul Bodhiyani, Fatma Suleman Abdul Bodhiyani, Musa Suleman Abdul Bodhiyani, Sabera Suleman Abdul Bodhiyani, Aysha Suleman Abdul Bodhiyani. |
| | | | | 493 | Private | Agriculture | 0.0416 | Ratilal Bhikhabhai Patel, Amrutlal Manilal, Ramilaben wd/o Ranjitlal, Yagneshkumar Ranjitlal Patel, Bhadreshkumar Ranjitlal Patel, Manishkumari Ranjitlal Patel, Madhuben Ratilal Patel, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Naitikkumar Ratilal Patel, Dharmeshkumar Ratilal Patel, Balvantrai Bhikhabhai Patel, Kanchanben Balvantrai Patel, Milankumar Balvantrai Patel, Vineshkumar Balvantrai Patel. |
| | | | | 481 | Private | Agriculture | 0.0320 | Yogeshbhai Nanubhai Umrigar, Harishbhai Nanubhai Umrigar, Nanubhai Jivabhai Umrigar, Shaileshbhai Nanubhai Umrigar. |
| | | | | 485 | Private | Agriculture | 0.0634 | Savjibhai Pragjibhai Jiyani. |
| | | | | 497 | Private | Agriculture | 0.0326 | Laliben wd/o Bhikhabhai Haribhai, Elaben Bhikhabhai Ahir, Jayshreeben Bhikhabhai Ahir, Dineshbhai Bhikhubhai Ahir. |
| | | | | 496 | Private | Agriculture | 0.0396 | Laliben wd/o Bhikhabhai Haribhai, Elaben Bhikhabhai Ahir, Jayshreeben Bhikhabhai Ahir, Dineshbhai Bhikhubhai Ahir. |
| | | | | 503 | Private | Agriculture | 0.0830 | Yusuf Mahamad Diler, Rasid Mahamad Diler, Abdul Rasid Mahamad Diler, Fatma Mahamad Diler, Aysha Mahamad Diler, Sarabibi Mahamad Diler. |
| | | | | 495 | Private | Agriculture | 0.0014 | Virbala wd/o Chandravadan Chhotalal, Santkumar Chandravadan Shah. |
| | | | | 494 | Private | Agriculture | 0.2351 | Khatij wd/o Suleman Abdul Bodhiyani, Fatma Suleman Abdul Bodhiyani, Musa Suleman Abdul Bodhiyani, Sabera Suleman Abdul |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Bodhiyani, Aysha Suleman Abdul Bodhiyani. |
| | | | | 515 | Private | Agriculture | 0.0515 | Jamanaben Haribhai, Parbhubhai Haribhai, Parvatiben d/o Haribhai Bhagabhai, Champaben d/o Haribhai Bhagabhai, Deviben d/o Haribhai Bhagabhai, Sharadaben wd/o Jamnadas Haribhai, Anil Jamnadas, Kamlesh Jamnadas, Bhartiben d/o Jamnadas Haribhai, Niranjanaben d/o Jamnadas Haribhai, Jyotiben d/o Jamnadas Haribhai, Pramodbhai Parbhubhai, Pushpaben wd/o Parbhubhai Haribhai, Pratibhaben d/o Parbhubhai Haribhai. |
| | | | | 514 | Private | Agriculture | 0.9110 | Nreshbhai Odhavbhai Patel, Tejaskumar Nareshbhai Patel, Vishakhaben w/o Nareshbhai Patel, Jyotiben Nareshbhai Patel. |
| | | | | 511 | Private | Agriculture | 0.0377 | Hajipara Nani Masjit. Ahamad Ibrahimbhai Bodiyat. |
| | | | | 509 | Private | Agriculture | 0.0396 | Mahamad Hashan Ghanchi. |
| | | | | 520P 1 | Private | Agriculture | 0.0455 | Khatij Mahamad Ismile Abharam. |
| | | | | 519 | Private | Agriculture | 0.0733 | Nareshbhai Odhavbhai Patel, Tejaskumar Nareshbhai Patel, Vishakhaben Nareshbhai, Jyotiben Nareshbhai. |
| | | | | 537 | Private | Agriculture | 0.0792 | Balvantrai Bhikhabhai Patel, Kanchanben Balvantrai Patel, Madhuben Ratilal Patel, Naitikkumar Ratilal Patel, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Dharmeshkumar Ratilal Patel, Milankumar Balvantrai Patel, Vineshkumar Balvantrai Patel. |
| | | | | 536 | Private | Agriculture | 0.0475 | Khatij Ismile Hashan Diler, Ibrahimbhai Hashanbhai Diler, Ayub Ismile Diler, Fatama Ahamad Hasan Diler, Fraukh Ismile Diler, Harun Ahamad Hashan Diler, Mahamad Ahamad Hashan Diler, Eqbal Ahamad Saiyad Diler, Rabiya Ahamad Diler, Hafiza Ahamad Diler, Mariyam ismile Diler, Nasir ismile Diler, Aysha ismile Diler. |
| | | | | 526 | Private | Agriculture | 0.0713 | Balvantrai Bhikhabhai Patel, Kanchanben Balvantrai Patel, Madhuben Ratilal Patel, Naitikkumar Ratilal Patel, Dharmeshkumar Ratilal Patel, Milankumar Balvantrai Patel, Vineshkumar Balvantrai Patel. |
| | | | | 522 | Private | Agriculture | 0.1918 | Khatij Ismile Hashan Diler, Ibrahimbhai Hashanbhai Diler, Ayub Ismile Diler, Fatama Ahamad Hasan Diler, Fraukh Ismile Diler, Harun Ahamad Hashan Diler, Mahamad Ahamad Hashan Diler, Eqbal Ahamad Saiyad Diler, Rabiya Ahamad Diler, Hafiza Ahamad Diler, Mariyam ismile Diler, Nasir ismile Diler, |

526 40711-5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|---------|-------------|--------|---|
| | | | | | | | | Aysha ismile Diler. |
| | | | | 531 | Private | Agriculture | 0.0059 | Farida Mahamad Fakir Ghanchi, Nasir Mahamad Ghanchi, Havagouri Mahamad Fakir Ghanchi. |
| | | | | 530 | Private | Agriculture | 0.1405 | Mahamad Saied Kasim Bodiya. |
| | | | | 565 | Private | Agriculture | 0.0079 | Mahamad Idrish Esapji Diler. |
| | | | | 375 | Private | Agriculture | 0.1763 | Muktar Ismile, Mahamad Ismile. Ibrahim Hashan Diler Fatmaben Ahamad Hashan Diler, Eqbal Ahamad Saiyad Diler, Harun Ahmad Diler Rabiya Ahamad Diler, Hafiza Ahamad Diler, Mahamad Ahamad Diler, Mariyam ismile Diler, Khatija Ahmad Diler Nasir ismile Diler, Aysha ismile Diler, Faruk Ismile Diler, Ayub Ismile Diler. |
| | | | | 529 | Private | Agriculture | 0.1743 | Mahamud Esapji Diler, Museji Esapji Diler. |
| | | | | 528 | Private | Agriculture | 0.0495 | Mahamad Yusuf Diler. |
| | | | | 527 | Private | Agriculture | 0.0198 | Padmaben wd/o Manibhai Haribhai, Ishwarbhai Manibhai Panchal, Kishorbhai Manibhai Panchal, Arvindbhai Manibhai Panchal. |
| | | | | 373 | Private | Agriculture | 0.0356 | Shakina wd/o Musa Mahamad Ghaled, Mariyam d/o Musa Mahamad Ghaled, Khatij d/o Musa Mahamad Ghaled, Mahamud Musa Ghaled, Fatma d/o Musa Mahamad Ghaled, Ahamad Musa Ghaled. |
| | | | | 345 | Private | Agriculture | 0.0059 | Shantilal Bhanabhai, Jagubhai Mangabhai, Bhikhubhai Mangabhai. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----|---------|--------------------|--------|---|
| | | | | 371 | Private | Non Agriculture | 0.0040 | Umashankar Pyarelal yadav, Rameshchandra Pyarelal yadav. |
| | | | | 372 | Private | Agriculture | 0.0895 | Merunisha Suleman, Halimabibi Suleman, Fakir Ibrahim Mahamad, Yusuf Ibrahim. |
| | | | | 376 | Private | Agriculture | 0.0594 | Mahamad Ibrahimbhai, Ayasha Mahamad Patel, Ismile Mahamad Patel, Hashim Mahamad Patel, Ibrahim Mahamad Patel, Hashan Mahamad Patel, Yusuf Mahamad Patel, Fatema Mahamad Patel, Hava Mahamad Patel, Zubeda Mahamad Patel. |
| | | | | 346 | Private | Agriculture | 0.0195 | Maganbhai Nathubhai Patel, Premilaben wd/o Mohanbhai Lalubhai, Haridas Mohanbhai, Ranjanben Mohanbhai, Bharatbhai Mohanbhai. |

[F. No. NHAI/SURAT/SDM/LA/15939]

S. NARENDRA, Director